



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2002/फाल्गुन 15, 1923

No. 108]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2002/PHALGUNA 15, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2002

सा.का.नि. 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, प्लाटून कमांडर (आशुलिपिक) और प्लाटून कमांडर (कार्यालय) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यापृति** :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर) | 1* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) (योद्धक)/ अनुसन्धीय | 8000-275- 13,500 रुपए | योग्यता के आधार पर चयन |
| सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
| नहीं | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | |
| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा | | |
| 10 | 11 | 12 | | |
| प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रति- नियुक्ति द्वारा | प्रोन्नति द्वारा :— भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के ऐसे सूबेदार मेजर/ (आशुलिपिक)/निरीक्षक (आशुलिपिक) से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों के आशुलिपिक जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग में 5500—9000 के वेतनमान में आशुलिपिक हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाध्य पद पर | | |

12

प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : संयुक्त सहायक कमांडेंट (आशुलिपिक) के पद की सहायक कमांडेंट (स्टाफ अधिकारी) के रूप में पदोन्नति द्वारा पदों के सृजन से, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर संयुक्त सहायक कमांडेंट के पद को धारण कर रहे हैं, छानबीन समिति द्वारा उनके उचित पाए जाने के अध्याधीन सहायक कमांडेंट के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किए समझे जाएंगे।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें होंगे :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | — अध्यक्ष |
| (2) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य |
| (3) निदेशक/उपसचिव, गृह मंत्रालय | — सदस्य |
| (4) उपमहानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | — सदस्य |

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।

[फा. सं. आई-12014/7/2001/ओर्ग]
श्याम ज़िंदल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2002

G. S. R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992) and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Platoon Commander (Stenographer) and Platoon Commander (Office) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Staff Officer) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement .—(1) These rules shall be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Commandant (Staff Officer) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay .—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection by merit or selection-cum - seniority or non-selection post |
|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Assistant-Commandant (Staff Officer) | 1* *Subject to variation dependent on work load. | General Central Service, Group 'A', (Gazetted) (Combatised, Ministerial) | Rs. 8,000-275-13,500 | Selection by merit |
| Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. | Age limit for direct recruitments | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
| No | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
| Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption the grades from which promotion/deputation/absorption to be made | | |
| 10 | 11 | 12 | | |
| Two years for Promotees | By Promotion failing which by deputation | By Promotion From amongst Subedar Major (Stenographers)/Inspector (Stenographers) of Indo-Tibetan Border Police with five years regular service in the grade and being in medical category SHAPE-I. By deputation By deputation of Stenographer of the other Central/State Government holding equivalent or | | |

12

analogous post OR Stenographer of other Central/State Government Department in the pay scale of Rs. 5500-9000/- having eight years service in the grade.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other Organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

Note : Since the posts are created by upgradation of the post(s) of Joint Assistant Commandant (Steno) as Assistant Commandant (Staff Officer) the person(s) holding the post of Joint Assistant Commandant (Steno) on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly appointed on regular basis to the post of Assistant Commandant (Staff Officer) subject to their being found suitable by the Screening Committee.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment rules.

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :—

1. Director General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman
2. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member
3. Director/Deputy. Secretary, Ministry of Home Affairs —Member
4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member

Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

[F. No. I-12014/7/2001-Org.]

SHYAM JINDAL, Dy. Secy.

